फॉर्म संख्या: पंजी./03/अन्य संस्थान

प्रयास व्यक्तित्व विकास सेवा (प्रा.) लि., गोरखपुर (उप्र)

गतिविधि भागीदार (अन्य संस्थान) के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

सहमित पत्र में इंगित इसके कार्यों की शर्तों से पूरी तरह सहमत हैं और बिना किसी दबाव के is स्वेच्छा से मेरा संस्थान 'प्रयास' द्वारा निर्धारित शर्तों पर गतिविधि भागीदार (अन्य संस्थान) के रूप में कार्य करने के लिए तैयार है। मुंझे इस आवेदन एवं सलग्न सहमित पत्र पर संस्थान (संस्थान का पूरा नाम:			
संस्था की पंजीकरण संख्याः वर्तमान कार्यक्रमों का विवरणः पंजीकरण शुल्क (रूपये 1000–एक हजार वाणिज्यिक संस्थान एवं रूपये 500-पांच सौ मात्र गैर-वाणिज्यिक संस्थान के लिए एक बार) का विवरणः (कृपया उपलब्ध पेमेंट लिंक के माध्यम से भुगतान करके उसका विवरण दर्ज करें) प्रमाणपत्र सत्यापित किया जाता है कि हमने 'गतिविधि भागीदार-अन्य संस्थान' के कार्यों की रुपरेखा, उसकी जिम्मेदारियों, संभावित आय एवं अन्य शर्तों आदि से सम्बंधित सभी सूचनाएं देख लिया है और सम्बंधित सहमति पत्र में इंगित इसके कार्यों की शर्तों से पूरी तरह सहमत हैं और बिना किसी दबाव के is स्वेच्छा से मेरा संस्थान 'प्रयास' द्वारा निर्धारित शर्तों पर गतिविधि भागीदार (अन्य संस्थान) के रूप में कार्य करने के लिए तैयार है। मुंझे इस आवेदन एवं सलग्न सहमति पत्र पर संस्थान (पता (पिन कोड़ सहित पूर्ण विवरण):			
संस्था की पंजीकरण संख्याः वर्तमान कार्यक्रमों का विवरणः पंजीकरण शुल्क (रूपये 1000–एक हजार वाणिज्यिक संस्थान एवं रूपये 500-पांच सौ मात्र गैर-वाणिज्यिक संस्थान के लिए एक बार) का विवरणः (कृपया उपलब्ध पेमेंट लिंक के माध्यम से भुगतान करके उसका विवरण दर्ज करें) प्रमाणपत्र सत्यापित किया जाता है कि हमने 'गतिविधि भागीदार-अन्य संस्थान' के कार्यों की रुपरेखा, उसकी जिम्मेदारियों, संभावित आय एवं अन्य शर्तों आदि से सम्बंधित सभी सूचनाएं देख लिया है और सम्बंधित सहमति पत्र में इंगित इसके कार्यों की शर्तों से पूरी तरह सहमत हैं और बिना किसी दबाव के is स्वेच्छा से मेरा संस्थान 'प्रयास' द्वारा निर्धारित शर्तों पर गतिविधि भागीदार (अन्य संस्थान) के रूप में कार्य करने के लिए तैयार है। मुंझे इस आवेदन एवं सलग्न सहमति पत्र पर संस्थान (
वर्तमान कार्यक्रमों का विवरण: पंजीकरण शुल्क (रूपये 1000–एक हजार वाणिज्यिक संस्थान एवं रूपये 500-पांच सौ मात्र गैर-वाणिज्यिक संस्थान के लिए एक बार) का विवरण: (कृपया उपलब्ध पेमेंट लिंक के माध्यम से भुगतान करके उसका विवरण दर्ज करें) प्रमाणपत्र सत्यापित किया जाता है कि हमने 'गतिविधि भागीदार-अन्य संस्थान' के कार्यों की रुपरेखा, उसकी जिम्मेदारियों, संभावित आय एवं अन्य शर्तों आदि से सम्बंधित सभी सूचनाएं देख लिया है और सम्बंधित सहमति पत्र में इंगित इसके कार्यों की शर्तों से पूरी तरह सहमत हैं और बिना किसी दबाव के is स्वेच्छा से मेरा संस्थान 'प्रयास' द्वारा निर्धारित शर्तों पर गतिविधि भागीदार (अन्य संस्थान) के रूप में कार्य करने के लिए तैयार है। मुंझे इस आवेदन एवं सलग्न सहमति पत्र पर संस्थान (संपर्क (दूरभाष):लैंडलाइन:	मोबाइल:	ईमेल:	
पंजीकरण शुल्क (रूपये 1000-एक हजार वाणिज्यिक संस्थान एवं रूपये 500-पांच सौ मात्र गैर-वाणिज्यिक संस्थान के लिए एक बार) का विवरण: (कृपया उपलब्ध पेमेंट लिंक के माध्यम से भुगतान करके उसका विवरण दर्ज करें) प्रमाणपत्र सत्यापित किया जाता है कि हमने 'गतिविधि भागीदार-अन्य संस्थान' के कार्यों की रुपरेखा, उसकी जिम्मेदारियों, संभावित आय एवं अन्य शर्तों आदि से सम्बंधित सभी सूचनाएं देख लिया है और सम्बंधित सहमित पत्र में इंगित इसके कार्यों की शर्तों से पूरी तरह सहमत हैं और बिना किसी दबाव के is स्वेच्छा से मेरा संस्थान 'प्रयास' द्वारा निर्धारित शर्तों पर गतिविधि भागीदार (अन्य संस्थान) के रूप में कार्य करने के लिए तैयार है। मुंझे इस आवेदन एवं सलग्न सहमित पत्र पर संस्थान (संस्था की पंजीकरण संख्या:			
संस्थान के लिए एक बार) का विवरण: (कृपया उपलब्ध पेमेंट लिंक के माध्यम से भुगतान करके उसका विवरण दर्ज करें) प्रमाणपत्र सत्यापित किया जाता है कि हमने 'गतिविधि भागीदार-अन्य संस्थान' के कार्यों की रुपरेखा, उसकी जिम्मेदारियों, संभावित आय एवं अन्य शर्तों आदि से सम्बंधित सभी सूचनाएं देख लिया है और सम्बंधित सहमित पत्र में इंगित इसके कार्यों की शर्तों से पूरी तरह सहमत हैं और बिना किसी दबाव के is स्वेच्छा से मेरा संस्थान 'प्रयास' द्वारा निर्धारित शर्तों पर गतिविधि भागीदार (अन्य संस्थान) के रूप में कार्य करने के लिए तैयार है। मुंझे इस आवेदन एवं सलग्न सहमित पत्र पर संस्थान (वर्तमान कार्यक्रमों का विवरण:			
सत्यापित किया जाता है कि हमने 'गतिविधि भागीदार-अन्य संस्थान' के कार्यों की रुपरेखा, उसकी जिम्मेदारियों, संभावित आय एवं अन्य शर्तों आदि से सम्बंधित सभी सूचनाएं देख लिया है और सम्बंधित सहमित पत्र में इंगित इसके कार्यों की शर्तों से पूरी तरह सहमत हैं और बिना किसी दबाव के is स्वेच्छा से मेरा संस्थान 'प्रयास' द्वारा निर्धारित शर्तों पर गतिविधि भागीदार (अन्य संस्थान) के रूप में कार्य करने के लिए तैयार है। मुंझे इस आवेदन एवं सलग्न सहमित पत्र पर संस्थान (संस्थान के लिए एक बार) का विवरण: (कृपया उपलब्ध पेमेंट लिंक के माध्यम से भुगतान करके उसका			
सत्यापित किया जाता है कि हमने 'गतिविधि भागीदार-अन्य संस्थान' के कार्यों की रुपरेखा, उसकी जिम्मेदारियों, संभावित आय एवं अन्य शर्तों आदि से सम्बंधित सभी सूचनाएं देख लिया है और सम्बंधित सहमित पत्र में इंगित इसके कार्यों की शर्तों से पूरी तरह सहमत हैं और बिना किसी दबाव के is स्वेच्छा से मेरा संस्थान 'प्रयास' द्वारा निर्धारित शर्तों पर गतिविधि भागीदार (अन्य संस्थान) के रूप में कार्य करने के लिए तैयार है। मुंझे इस आवेदन एवं सलग्न सहमित पत्र पर संस्थान (
जिम्मेदारियों, संभावित आय एवं अन्य शर्तों आदि से सम्बंधित सभी सूचनाएं देख लिया है और सम्बंधित सहमित पत्र में इंगित इसके कार्यों की शर्तों से पूरी तरह सहमत हैं और बिना किसी दबाव के is स्वेच्छा से मेरा संस्थान 'प्रयास' द्वारा निर्धारित शर्तों पर गतिविधि भागीदार (अन्य संस्थान) के रूप में कार्य करने के लिए तैयार है। मुंझे इस आवेदन एवं सलग्न सहमित पत्र पर संस्थान (प्रमाणपत्र			
حتى والأهم لهما الله عن الأوهاء المراجع عن والأمراء عن الأمراء الأمراء الأمراء الأمراء الأمراء الأمراء المراجع الم	जिम्मेदारियों, संभावित आय एवं अन्य शर्तों सहमति पत्र में इंगित इसके कार्यो की शर्तों से संस्थान 'प्रयास' द्वारा निर्धारित शर्तों पर गति तैयार है। मुंझे इस आवेदन एवं सलग्न सहमति	आदि से सम्बंधित सभी सूच पूरी तरह सहमत हैं और बिन विधि भागीदार (अन्य संस्थान पत्र पर संस्थान () की तरफ से हस्ताक्षर ह	नाएं देख लिया है और सम्बंधित । किसी दबाव के is स्वेच्छा से मेरा ।) के रूप में कार्य करने के लिए	
द्वारा अधिकृत किया गया है। प्राधिकार पत्र इस आवेदन के साथ संलग्न किया गया है। मै सत्यापित करता हूँ कि संस्था द्वारा 'प्रयास' के साथ कार्य करने के लिए अधिकत व्यक्ति के पास इन्टरनेट कनेक्शन वाला स्मार्ट	द्वारा अधिकृत किया गया है। प्राधिकार पत्र इ	स आवेदन के साथ संलग्न कि व लिए अधिकत ट्रास्टिन के पा	ग्या गया है। मै सत्यापित करता हूँ स्म इन्टरनेट कनेत्यान वाला स्पार्ट	

मोबाइल फोन है और आगे भी रहेगा। 'प्रयास' के हिस्से की आय को डिजिटल माध्यम से स्थान्तरित किया जायेगा और इस उद्देश्य से किये 'प्रयास' द्वारा अपने बैंक खाते का सारा विवरण आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जाएगा।

दिनांक	हस्ताक्षर	
	कार्यालय के उ	गमेग देन
) द्वारा अधिव लिए आवेदन पत्र 10 किया जाता है और र	को सस्थान (क कृत किये गए हैं -से गतिविधि भागीद 00/500 रूपये के पंजीकरण शुल्क र	 ार (अन्य संस्थान) के रूप में पंजीकरण कराने के से साथ प्राप्त हुआ जिसे 'प्रयास' द्वारा स्वीकार आवंटित किया जाता है। इस कूट
		हस्ताक्षर
		कृते प्रयास व्यक्तित्व विकास सेवा (प्र.) लि.
		पद
		दिनांक